

3
16-2-08

R-1578
14-2-8
1026

Reg ster No. 2539
File No. IV/2661
Serial No. 137
3/2/08

प्रेषक,

दिवाकरप्रसाद चतुर्वेदी,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थनगर.

प्रेषिती,

श्रीमान् महा निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद.

Request-123

द्वारा:-

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश सिद्धार्थनगर.

पत्रांक-

सिद्धार्थनगर.

विषय:-

प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण हेतु भारतीय स्टेट बैंक शाखा नौगढ़ जिला- सिद्धार्थनगर से तीन लाख रुपये का लोन लिये जाने के सम्बन्धमें।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पूर्वानुमति से झूंसी, इलाहाबाद में एक प्लॉट भवन निर्माण हेतु क़य किया गया था, जिसके निर्माण हेतु प्रार्थी द्वारा दिनांक 2.01.2008 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा नौगढ़ जिला- सिद्धार्थनगर से तीन लाख रुपये का पर्सनल लोन 12.75% वार्षिक ब्याज की दर पर, जो मुबलिंग 8012=00 रुपये मासिक किश्त पर 48 मासिक किश्तों में देय है, लिया गया है, जिसके अरेजमेन्ट लेटर की फोटोप्रति इस पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित की जा रही है। यह प्रार्थना-पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

सतम्मान।

31.01.2008

संलग्नक-यथोक्त.

भवदीय,
31/01/08
दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थनगर.

न्यायालय जनपद न्यायाधीश - सिद्धार्थनगर
दिनांक 01-02-08

जनपद न्यायाधीश
सिद्धार्थनगर

S.O. Adm HIA
15.2.08
Asstt Comm

Approved
26-2-08

A.R.(M)
This is for information.
May keep on record?
26-2-08

Yes
26.02.08
AR(M)
26-2-08

J.R.M.
w.s.

4 FEB 2008

4

STATE BANK OF INDIA

Branch (Siddharth Nagar) 22131
 Phone : 05544-22131
 Naugarh (Siddharth Nagar) BRANCH
 Phone : 05544-22131

ARRANGEMENT LETTER

STATE BANK OF INDIA

Branch

Naugarh (Siddharth Nagar)
 Phone : 05544-22131

TO,

Shri/Smt./Kunr.

DIWAKAR PRASAD CHATURVEDI

Dear Sir,

Personal segment advances :

Personal Loan Scheme X-Press creditTerm Loan of Rs. 300000/- lacs.

Request-123

With reference to your application dated 09.01.08 we hereby sanction you a
 Loan/Overdraft* (delete which is not applicable) of Rs. 300000/-
 (Rupees Three lac only) only)
 on the following terms and conditions :

1. PURPOSE :

The loan is sanctioned to you as per your application dated 09.01.08

2. RATE OF INTEREST :

Fixed Rate of Interest* :

Interest on the loan will be charged at _____ % p.a. on highest monthly reducing balance, at quarterly rests. In the event of a default in payment or any irregularity in account, the Bank reserves the right to levy a higher rate of interest, as it deems fit.

Floating Rate of Interest* :

Interest on the loan will be charged at _____ % p.a. over PLR/SBAR/SBMTLR* which is currently 12.5 % p.a. (The current effective rate being 12.5 % p.a.) with quarterly rests. The rate of interest is subject to revision from time to time and you shall be deemed to have notice of changes in the rate of interest whenever the changes in PLR / SBAR / SBMTLR are displayed / notified at / by the branch / published in newspapers / made through entry of interest charged in the passbook / statement of account sent to you etc. The Bank has the option to reduce or increase the EMI or extend the repayment period consequent upon changes in PLR / SBAR / SBMTLR. In the event of a default in payment or any irregularity in account, the Bank reserves the right to levy a higher rate of interest as it deems fit.

* Delete whichever is not applicable.



3. REPAYMENT :

The loan is to be repaid in 48 Equated Monthly Instalment of Rs. 8012/-. The number of equated monthly instalments may increase / vary if the entire loan with interest, cost charges and expenses is not repaid by/with the stipulated number of equated monthly instalments by reason of increase in the rate of interest or otherwise. The equated monthly instalments will have to be paid till the entire loan with interest is fully repaid. The first instalment commences from the month following the month of disbursement of loan.

In the case of availment of loan as an overdraft in a Current Account, the reduction in the Drawing Power from the 1st of every month by an amount of Rs. _____ will commence from the month following the month in which the documents are executed.*

4. **Personal Guarantee of** _____ (Spouse)

PROCESSING CHARGES :

Processing Charges of Rs. 1650- (Rs. One Thousand and Six Hundred Fifty only) are payable immediately.


Please call on us on any working day to execute the documents. The loan is also subject to other terms and conditions as mentioned in the documents(s) executed to be executed in connection with the loan and as may be prescribed by the Bank from time to time. The duplicate copy of this arrangement letter may please be returned to us duly signed by you and the guarantor (s) in token of acceptance of the terms and conditions detailed herein.

The terms and conditions specified in this letter hold good for a period of 45 days from the date of this letter.

Yours faithfully,


Branch Manager

Received the original. Terms and conditions accepted.


Borrower (s)

Date

Terms and conditions of the loan are noted.

Guarantor (s)

PLR : Prime Lending Rate SBAR : State bank advance rate BMR : State bank medium term lending rate p/s - plr index
* Delete whichever is not applicable.

Request-123